

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021 — आषाढ़ 29, शक 1943

श्रम विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2021

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2015/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 6 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—  
“(3) अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति.— अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अनुसार की जायेगी।”
- नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—  
“12. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।”
- नियम 13 का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-7/2015/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2015/16, दिनांक 19-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 19th July 2021

#### NOTIFICATION

No. F 1-7/2015/16 :- In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015, namely :-

#### AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (3) of rule 6, the following shall be substituted, namely:-

“(3) Method of Appointment of President.- President shall be appointed by the State Government in accordance with clause (a), (b) or (c) of sub-section (2) of Section 9 of Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960).”

2. For rule 12, the following shall be substituted, namely:-

“12. Interpretation.- If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final.”

3. Rule 13 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.